

H. NO. 17, BLOCK 1, TRILOKPUR, DELHI - 110091

Whereas the above-named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 43,37,666.66 (Rupees FORTY-EIGHT LAKH THIRTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY-SIX AND SIXTY-EIGHT PAISA ONLY) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before on 16.06.2025 at 10:30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website www.tribunal.gov.in) Phone Number: 011-23748473.

Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-

(i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software;

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing case to be taken by Registrar/Recovery Officer-I/and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the Public Notice Head.

(iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this 30<sup>th</sup> Jan, 2025.

By Order of this Tribunal Assistant Registrar

herein before in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 29<sup>th</sup> May 2025.

The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for being Rs.12,33,697/- (Rupees Twelve Lakh thirty three thousand six hundred ninety seven only) + INTEREST + FUTURE INTEREST + INCIDENTAL EXPENSES + COSTS + OTHER CHARGES etc. thereon

**Home Loan (Maxgain) - 32054835510**

**Description of the Immovable Property**

Property Owned By: Mr. Sanjeev Kumar S/o. Shri Ram Sharan Singh

Flat no.-307, 3rd floor Pocket- C, Block- E, DDA LIG Flat, Mohanbadi, Badarpur, New Delhi-110044. Also at: D-40/1, Gali No.-01, Goyal complex, Tajpur Road, Badarpur, New Delhi-110044. Also at: C/o- Deep Plast Industries Block-553, Rakarpur (Sante), Taluka Kalai, Dist-Gandhi Nagar (Gujrat), PIN- 382721

Date: 31.05.2025

Place: South East-1 (New Delhi)

Authorized Officer  
State Bank of India

paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):

1. Basic  
2. Diluted

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the quarterly and year ended March 31, 2025 SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the website (www.mylisting.mse.in) and Company's website.

2. The above Audited Financial Results were reviewed by the Board of Directors in its meeting held on 30.05.2025

Place: Delhi  
Date: 30.05.2025

BOHRA INDUSTRIES LIMITED									
CIN: L24117811996PLC012912									
Regd. Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur - 313001, Rajasthan									
Statement of Standalone audited Financial Results for the Quarter and Year ended									
Particulars	Quarter ended on					Year ended			
	31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-22	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-22
1. Revenue from Operations									
2. Other income									
3. Total Income (A)									
4. Expenses									
5. Cost of materials consumed									
6. Purchase of Stock-in-Trade									
7. Changes in inventories of finished goods, stocks-in-trade and work-in-progress									
8. Employee benefits expense	1.91	3.21	4.79	23.01	22.50				
9. Finance costs	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01				
10. Depreciation and amortisation expense	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00				
11. Other expenses	97.22	4.95	97.22	27.25	198.75				
12. Total expenses	228.00	42.40	126.00	286.26	279.76				
13. Profit/(Loss) before exceptional items and tax (B)	(228.00)	(42.40)	(126.00)	(286.26)	(279.76)				
14. Exceptional items									
15. Profit/(Loss) before tax (C)	(228.00)	(42.40)	(126.00)	(286.26)	(279.76)				
16. Tax expense	(22.57)			(22.57)	(22.57)				
17. Profit/(Loss) for the period (D=E)	(195.30)	(42.40)	(126.00)	(263.69)	(257.29)				
18. Other Comprehensive Income									
19. Items that will not be reclassified to profit or loss									
20. Income tax relating to items that will not be reclassified									
21. Total Comprehensive Income for the period (F=G)	(195.30)	(42.40)	(126.00)	(263.69)	(257.29)				
22. Paid-up Equity Share Capital (Face Value of 10/- each)	1,43,712	1,43,712	1,43,712	1,43,712	1,43,712				
23. Reserves (including intangible assets as shown in the balance sheet of the previous year - Other than Equity Reserve)									
24. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (unaudited)									
25. Basic (F)	(1.36)	(2.95)	(0.87)	(1.83)	(1.82)				
26. Diluted (F)	(1.36)	(2.95)	(0.87)	(1.83)	(1.82)				

Notes: 1. The above unaudited financial result for the quarter and year ended 31st March, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29.05.2025. 2. The figures have been regrouped or re-classified wherever necessary. 3. The figures for the quarter ended 31st March, 2025 and 31st March, 2024 as reported in the financial results, are the balancing figures between the audited financial result for the full financial year and the unaudited published financial result for the nine month ended 31st December, 2024 respectively. 4. The company operates under one segment only and therefore reporting under AS-17 (segment reporting) is not applicable.

For Bohra Industries Limited  
Krishna Argawal  
Director  
DIN: 09402238

Place: Udaipur  
Date: 29-05-2025

RAJ DARSHAN INDUSTRIES LIMITED												
CIN: L14100RJ1980PLC002145, Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com, Mail: info@rajdarshanindustrieslimited.com												
Address: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur - 313001												
Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025												
Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Quarter ended		Year ended			
	31/3/2025	31/12/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/3/2025	31/12/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/3/2025		
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited	
Total income	(8.84)	(1.40)	77.39	267.95	209.93	(8.84)	(1.40)	77.39	267.95	209.95	209.95	
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	17.90	
Net Profit for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	17.90	
Net Profit for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items	(28.00)	(8.18)	13.53	72.02	23.45	(28.00)	(8.18)	13.53	72.02	23.45	23.45	
Share of Profit/Loss of associates and Joint Ventures accounted for using Equity method	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.09	0.01	(0.13)	0.04	0.04	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(180.71)	(11.06)	(150.32)	66.50	24.28	(180.28)	(11.15)	(150.31)	66.37	47.77	47.77	
Equity Share Capital	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	1831.68	1879.40	0.00	0.00	0.00	1833.56	1919.83	1919.83	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)												
1. Basic:	(0.93)	(0.28)	0.44	2.32	0.75	(0.92)	(0.27)	0.44	2.31	0.76	0.76	
2. Diluted:	(0.93)	(0.28)	0.44	2.32	0.75	(0.92)	(0.27)	0.44	2.31	0.76	0.76	
NOTES												
The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on May 29, 2025												
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015												
The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on the Company's Website.												
Place: Udaipur												
Date: 29/05/2025												
For Rajdarshan Industries Ltd Devendra Sharma CEO & Managing Director DIN: 00927174												

VANI COMMERCIALS LIMITED										
Regd. office: Khasra No. 19/4, Kamrudin Nagar, Near Butterfly Sr. Sec. School, Najafgarh Road, Nangloi, Delhi-110041										
CIN: L74899DL1989PLC106425 PH: +91- 9560066230 Website: www.vanicommercials.com Email ID: info@vanicommercials.com										
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (Rs. In Lakhs)										
Particulars	Standalone					Consolidated				
	3 Months ended 31.03.2025 (Audited)	3 Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	3 Months ended 31.03.2024 (Audited)	Year to date (Current Year) 31.03.2025 (Audited)	Previous Year Ended 31.03.2024 (Audited)	3 Months ended 31.03.2025 (Audited)	3 Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	3 Months ended 31.03.2024 (Audited)	3 Months ended 31.03.2024 (Previous Year) (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
Total income from operations (net)	1.00	82.00	(39.00)	339.00	316.00	1.00	82.00	(39.00)	339.00	316.00
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	34.00	15.00	36.00	48.00	61.00	34.00	15.00	36.00	48.00	61.00
Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	34.00	15.00	36.00	48.00	61.00	34.00	15.00	36.00	48.00	61.00
Net Profit / (Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items	12.00	15.00	(1.00)	28.00	24.00	12.00	15.00	(1.00)	28.00	24.00
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	12.00	15.00	(1.00)	28.00	24.00	12.00	15.00	(1.00)	28.00	24.00
Equity Share Capital (Paid-Up)	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00
Reserves (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
1. Basic:	0.01	0.13	0.00	0.02	0.02	0.01	0.13	0.00	0.02	0.02
2. Diluted:	0.01	0.13	0.00	0.02	0.02	0.01	0.13	0.00	0.02	0.02

\*Paid up Equity Share Capital & Earning Per Share provided above relates only to Vani Commercials Limited.

NOTES

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 28th May, 2025.

2. The Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and financial year ended on 31st March, 2025 are also available on website of the Company (www.vanicommercials.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

3. Previous year's/period's figures have been regrouped / rearranged, wherever required.

4. This Statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

5. The Company operates in a service segment in India.

6. Silverlink Fintech Private Limited ceased to be the subsidiary of the Company w.e.f. 12th February, 2025.

7. The Statutory Auditors of the Company have carried out Audit of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2025 in terms of Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have expressed their unqualified opinion.

For Vani Commercials Limited

Vishal Abrol

Managing Director

DIN: 06938369

Place : New Delhi

Date : 29th May, 2025

**STATE BANK OF INDIA**  
Home Loan Centre  
Ring Road, South East-1 (New Delhi)

**POSSESSION N**

(Under Rule 8(i) of SARFAESI Act 2001)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Securitization and Reconstruction of Financial Assets Act, 2002 and in exercise of the powers conferred upon Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issue calling upon the Borrower Mr. Rakesh Kumar Si amount mentioned in the notice being Rs.23,93,25/- (Rupees Twenty three thousand two hundred fifty six only) + INCIDENTAL EXPENSES + COSTS + OTHER CHA receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, no the public in general that the undersigned has taken herein below in exercise of powers conferred on him read with Rule 8 of the said rules on this 29<sup>th</sup> May 2025

The Borrower in particular and the public in general i property and any dealings with the property will be s India an amount of Rs.23,93,25/- (Rupees Twenty three thousand two hundred fifty six only) + FUTURE + COSTS + OTHER CHARGES etc. thereon

Loan Account: HLAC-64116104895-64172757551

**Description of the Immo**

Property Owned By: Mr. Rakesh Kumar S/o Mr. All That Part and Parcel of The Property Consisting Khatola No.38, Mustali No.44 Kila No.18-03/2/1/ Village Kaboojpur Khadar, Patti Patti, near Gholi, Faridabad (Haryana) 121001. Also at: Jai Prabh (Bihar), PIN-85220. Also at: Ashirwad B-302, Ne Goa, Pin-403521

Date: 31.05.2025

Place: South East-1 (New Delhi)

**PROTECTING INVEST**  
Aditya Birla

Registered Office: Indian Rayon Compo Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Corporate Park | B-109 | Sanjay I ABHL Authorized Officer: Mr. Anand 2. Auction Service Provider (ASP) - MS-P (AuctionTiger) Mr. Ram Sharma - Contact I

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMO**

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable / Reconstruction of Financial Assets and Enforcement provision to rule 8(i) of the Security Interest (Enforcement) Notice is hereby given to the public in general ar Guarantor(s) that the below described immovable pr Birla Housing Finance Limited Secured Creditor, the p Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Lr by auction on "As is where is", "As is what is", and recovery Rs. 39,25,499.98/- (Rupees Thirty Nine Lac Ninety Nine and Ninety Eight Paise Only) and furth the date of realization, due to Aditya Birla Housing Fi Borrowers namely RINKU SHARMA, OMVATI SHARI

The reserve price will be INR 36,00,000/- (Rupees Money Deposit (EMD) will be INR 3,60,000/- (Rupee The last date of EMD deposit is 28-06-2025. Date of 19-06-2025 between 11.00 AM to 04.00 PM.

**DESCRIPTION OF IMMOVIA**

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE ON PLO SQ. MTRS., MINJUMALA KHASRA NO. 931, SITU KHIRISHA PUBLIC SCHOOL, AWADHPURI ROAD TESHIL & DISTRICT: DISTRICT: AGRA, UTTAR PRAI EAST PLOT NO. 16, WEST PLOT NO. 18, NORTH NO. 19

For detailed terms and conditions of the sale, please Housing Finance Limited/Secure https://homefinance.adityabirlacapital.com/prop or i.e. https://sarfaesi.auctiontiger.net

Date: 31-05-2025

Place: AGRA

**Corporate Office: M/s. Karvy Finance**  
Santacruz (E).

**SALE NOTICE THROUGH AUCTION UN**  
INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 20

In exercise of powers conferred under s Interest (Enforcement) Rules, 2002 an public and all concerned including the e offers are invited by the Karvy Financial Whereas the authorized officer of the K AND "AS IS WHAT IT IS BASIS" AND "I

Name Of Borrower	Auction Date	Den	Notice and A
1. Loan Code No. 421552, 534667 & 420825	1st July 2025	14-N	2/-
Borrower & Co-Borrowers			Rs. 511
1. GAJENDRA KUMAR			
2. INDIRA YADAV			

1. The intending bidders should be present himself/herself.

2. The intending bidders may obtain the Te New Delhi 110018

3. The tenderers/ offerers/ prospective bid demand draft or pay order favoring M Property" so as to reach with our autho the successful bidder shall be adjusted t

4. For document verifications, intending pu New Delhi 110018

5. The Property/ies is sold on "AS-IS-WHE

6. The Sealed Tenders will be opened in the will be by way of closed tenders, the Au higher than the one received in the clos subject to confirmation of M/s. Karvy Fi

7. The successful bidder shall have to pay next working day on completion of sale initial deposit of 25% shall be forfeited, f of sale.

8. The Sale Certificate will be issued by the stipulated herein.

9. The Successful purchaser shall bear the

10. The Successful bidder should pay the undertaking and Local bodies.

11. The Authorized Officer has absolute righ thereof and also modify any terms and c prior notice.

Place: Delhi  
Date: 30th May 2025



## महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शानदार आगाज, 12 टीम ले रही भाग



भीलवाड़ा, (निसं)। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में महेश नवमी महोत्सव 2025 के तहत महिलाओं को खेलों में आगे लाने के लिए महेश स्पोर्ट्स एकेडमी में एमपीएल फीमेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा।

तीन दिवसीय एमपीएल फीमेल प्रतियोगिता केसर रंग के कमल सोनी - टीना सोनी द्वारा प्रयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारम्भ राष्ट्रगान के साथ किया गया। उसके पश्चात अतिथियों द्वारा टीकोंकी का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीनगर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष और अर्चित मूंदड़ा ने बताया कि प्रभारी मधु देवपुरा एवं अंजना मालु के सान्निध्य में यह कार्यक्रम महेश स्पोर्ट्स एकेडमी पर शुरू हुआ है। महिला प्रभारी पंकज पोखवाल ने बताया कि एमपीएल का शुभारम्भ मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती ममता मोदीनी एवं पश्चिमोत्तर संयुक्त मंत्री ललिता भट्टाचार्य ने। साथ ही नगर अध्यक्ष केदार गंगरानी, नगर मंत्री संजय जागोदिया, संयोजक व पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी, सह संयोजक केजी राठी, अभिजीत सारखा, प्रहलाद दुवाल, गोपाल नरानीवाल, प्रमोद छद्म, विनय माहेश्वरी, सुभाष लड़ा, कैलाश अजमेरा, अर्चित मूंदड़ा द्वारा सांस्कृतिक रूप से भगवान महेश की तस्वीर के समक्ष झुके प्रणमन कर किया गया। प्रतियोगिता में 12 टीम जिसमें 72 महिलाएं और 24 युवतियां भाग ले रही हैं। जो पिछले कई दिनों से अपने पारिवारिक दायित्व को निभाने हुए प्रैक्टिस कर इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रही हैं। प्रभारी कैलाश नरानीवाल ने बताया कि यह प्रभारी अखिल भारतीय, पक्षी लड़ा, शीतल बिस्वा, रेनु कोमरा, अर्चना लाहोटी, सहित मूंदड़ा, प्रदीप जागोदिया, अर्चित सोमानी, सचिन काकरा, अरुण बिजानी, भरत सोडाणी आदि के सहयोग से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एवं सोमानी का कप्तानी में सहयोग रहा। प्रथम मैच सुभाष नगर वसेस शास्त्री नगर बी के मध्य आयोजित हुआ। जिसमें शास्त्री नगर बी विजेता रही। दूसरा मैच शास्त्री नगर ए वसेस विजय सिंह प्रथिक नगर के बीच हुआ जिसमें शास्त्री नगर टीम विजेता रही। तृतीय मैच चंद शेखर अजाड़ा नगर वसेस पुराना शहर के मध्य हुआ जिसमें चंदशेखर आजाद नगर टीम विजय रही। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय स्पर्धाओं से पछारे अध्यक्ष, मंत्री, महिला संगठन, युवा संगठन के अध्यक्ष व मंत्री व समाज जन उपस्थित रहे।

### गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर छाबील सेवा लगायी

उदयपुर, (नसं)। गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस पर आज रोटी क्लब ऑफ उदयपुर अचीवर्स व अनुत्पन्न श्री पंजाबी समाज ने संयुक्त रूप से हिरण्यगर्भा से 4 स्थित गुरु नानक कॉलेज में छाबील सेवा लगायी। यह सेवा सुबह 11 से शाम 4 बजे तक अनवरत जारी रही और करीब 8000 लोगों ने कच्ची बिसी के लोकर की सेवा दी। क्लब अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र बहल ने बताया कि इस अवसर पर समाज के सभी पदाधिकारी व अन्य लोग भी शामिल थे। मुख्य रूप से रोटी क्लब ऑफ उदयपुर अचीवर्स, व अनुत्पन्न श्री पंजाबी समाज के महासचिव डॉ. जितेन्द्र बहल, संरक्षक जगदीश अरोड़ा, सुधीर सरीन, नरेंद्र अरोड़ा, जितेंद्र लुधरा, डॉ. देवेंद्र सरीन, मधु सरीन, संजीव तलवार, कमल जुनेजा, बीना जुनेजा, संदीप सोनी, कमल किशोर छाबड़ा, दीपक खन्ना व जिला अध्यक्ष धर्मेश शास्त्री, सक्षम मेहरा, डॉ. राधिका बहल, अनुराधा बहल, अशोक सारस्वत, तुषार देव, धीरज अरोड़ा, विनोद चौधरी, अजय चोपड़ा दम्पति, आदित्य टंडन, विनय खत्री, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अशोक पनवा, गौरव दाना, शानु परहार, रोटी क्लब उदयपुर अचीवर्स के राजू बरवा और जैन समाज के सुरेश जैन भी उपस्थित रहे। इससे अलावा समाज के कई लोगों ने दूध, चीनी, रोख शरबत, ठण्डा जल की सेवा का योगदान दिया व लगातार सेवा कार्य में भाग लिया।

## उप जिला चिकित्सालय निर्माण को लेकर पूर्व राज्यमंत्री जाड़ावत के नेतृत्व में बस्सी ग्रामीण मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

निम्नाहड़ा, (निसं)। राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में स्वीकृत हुए शिलान्यास हुए 32 करोड़ रुपए लागत वाले उप जिला चिकित्सालय के निर्माण को लेकर प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत के मुख्य अतिथि में बस्सी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ, अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह राठी ने की, विशिष्ट अतिथि प्लांट अध्यक्ष विक्रम जाट, बस्सी मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी थे। धरने के पश्चात सड़क मार्ग करते हुए पूर्व मंत्री के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील तक पहुंचकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कहा की सत्तापरिवर्तन हुए 1 वर्ष 6 माह हो चुके हैं किन्तु जमीन विवाद का समाधान नहीं होने से उपजिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य अधखुल में अटका हुआ है जो आवाजन के लिहाज से अत्यंत चिन्ताजनक बात है चिकित्सा जैसे विषय पर राजनीति किया जाना कदाई उचित नहीं है, यह पुरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा व विशेष



पिछड़वर्ग बाह्य क्षेत्र है व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए संजीवनी के समान है किन्तु इस प्रकार की उपेक्षा से पूरे क्षेत्र में निराशा व रोष व्याप्त है।

प्रकार नवरत्न जैनगर ने बताया की मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री जाड़ावत ने अपने संबोधन में स्वीकृत उप जिला चिकित्सालय निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुआ कहा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जमीन चिन्हित कर आवंटित होकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यक्षेत्र तक जारी कर दिया गया था जिससे असर पास के क्षेत्र वासियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता, जमीन चिन्हित करने से कोई विवाद है तो अन्य स्थान पर

चयन कर निर्माण होना चाहिए था, किन्तु स्थान को लेकर निर्माण कार्य को डेढ़ साल से अटका रहा है जगहिल में नहीं है आप बस्सी को कोई सींगत नहीं दिला सकते तो स्वीकृत जगहिल के कार्यों को अपने राजनीतिक खींचतान को लेकर अटका कर मत रखो।

उन्होंने कहा की इस महत्वपूर्ण जिला चिकित्सालय का कार्य शुरू नहीं हो पाया जबकि 22 डिक्ट तक की स्वीकृत जारी हो गई थी तथा हाल ही में सरकार द्वारा बस्सी में 28 ब्यार्ड नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति हुई है, उप जिला चिकित्सालय भविष्य में जिला चिकित्सालय में परिवर्तित हो जाता। उन्होंने कहा की जनभावना को ध्यान में

रखते हुए कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया।

इस अवसर पर संगठन महामंत्री लादू लाल धाकड़, भेरुवास बैरगी, शिवप्रकाश मूंदड़ा, बंशीलाल मूंदड़ा, देवीलाल धाकड़, शांतिलाल धाकड़, नारायण लाल कुमावत, रामलाल धाकड़, सुभिलाज जाट सरपंच मोहनलाल धाकड़, जितेंद्र रेगर, रघुवीर सिंह, देवीलाल पाल लाल राम धाकड़, विनोद धोबी, शीतल सिंह, हृषी सिंह नगरी, भरत धाकड़, पूर्व सरपंच फूलचंद धाकड़, आजाद जाट, भगवान सिंह, तुषारज सिंह नेगड़िया, विशाल सोनी, संजय तेली, गंगाराम पटेल, रतनलाल गुर्जर, उदयलाल रेगर, सतीश सुवालका, संजय राय, देवकिशन जाट, रामेश्वर माली, महावीर सिंह, गजपाल सिंह, ओमप्रकाश तेली, भेरुसिंह केलाड़, गोवर्धन जाट, प्रीतम जाट, पूर्व सरपंच रामलाल भील, दीपक जोशी, दर्पण शर्मा, विनोद खटीक मोहम्मद अली रफीक कंडवत, इफ्तेखर बकाली, भानु प्रताप सिंह, रोनी खटीक, खमालीलाल कुमावत, अम्बर हुसैन मंसूरी, मुकेश गाडरी, संचालन रफीक सर ने किया।


RAJDARSHAN INDUSTRIES LIMITED												
CIN: L14100RJ1980PLC02145, Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com, Mail: info@rajdarshanindustrieslimited.com												
Address: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur - 313001												
Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025												
Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended			Year ended			Quarter ended			Year ended		
	31/3/2025	31/12/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/12/2024	31/3/2025	31/12/2024	31/3/2024	31/3/2024	31/12/2024	31/3/2025
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income	(8.84)	(1.40)	77.38	267.85	208.93	(8.84)	(1.40)	77.38	267.85	208.93		
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary Items	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90		
Net Profit for the period before tax after Exceptional and Extraordinary Items	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90	(34.95)	(8.58)	31.78	90.27	17.90		
Net Profit for the period after tax after Exceptional and Extraordinary Items	(29.00)	(8.18)	13.53	72.02	23.45	(29.00)	(8.18)	13.53	72.02	23.45		
Share of Profit/(Loss) of associates and Joint Ventures accounted for using Equity method	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(180.71)	(11.08)	(150.32)	66.50	24.28	(180.28)	(11.15)	(150.31)	66.37	47.77		
Equity Share Capital	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	1831.88	1878.40	0.00	0.00	0.00	1833.56	1919.83		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)												
1. Basic:	(0.83)	(0.28)	0.44	2.32	0.76	(0.82)	(0.27)	0.44	2.31	0.78		
2. Diluted:	(0.83)	(0.28)	0.44	2.32	0.76	(0.82)	(0.27)	0.44	2.31	0.78		
NOTES												
The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on May 29, 2025												
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015												
The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website.												
Place: Udaipur						For Rajdarshan Industries Ltd						
Date: 28/05/2025						Dinesh Sharma						
						CEO & Managing Director						
						DIN: 00821714						

# पटेल की पीओके पर लिखी गई सरदार के बीच हुए ऐतिहासिक

कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग हैं ही लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर अगर हम कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी पाकिस्तान

उत्तर प्रदेश के केराना के प्रसिद्ध शायर मुजुफ्फर इस्लाम रस्मी में अपनी इन पंक्तियों में बताते की कोशिश की है कि किसी लम्हें में की गई कोई गलती, कोई भूल आपके आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। पिछले 78 सालों में हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और हजारों सैनिकों का भी बलिदान हो चुका है। अभी भी हम युद्ध की स्थिति में हैं। आज उस मुद्दे की बात करेंगे कि हम दुनिया की चौथ अर्थव्यवस्था होकर भी अभी भी एक कंगाल देश के साथ विवाद में उलझे हैं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद का कारण कश्मीर है। ये तो हम बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। ये इतिहास भी बहस का विषय है कि कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? आरोप पंडित नेहरू पर लगते हैं और इसको लेकर देश में सिंघासत भी खूब होती है। किताबें भी लिखी जाती हैं। लेकिन 78 साल बाद भी कश्मीर में निर्दोष मारे जाते हैं। उसी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने चार दिन का युद्ध लड़ते हैं तो इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। वर्ष 1947 में जब देश को आजादी मिली और कश्मीर के भाग्य का फैसला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के हाथ में था। तब क्या उससे कुछ बड़ी गलतियां हुई? जिनकी वजह से कश्मीर की समस्या और गहरी होती चली गई। कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग हैं ही लेकिन कश्मीर का पूरा कश्मीर अगर हमारे पास होता तो क्या होता? भारत की क्या तस्वीर होती। लेकिन आज कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में

है और इसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक कांटा लगातार दर्द दे सकता है, भले ही शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। उन्होंने कहा कि भारत ने 'आतंकवाद के कटि को निकासने' का मन बना लिया और इसे पूरी दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में हुई चुनपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 1947 में कश्मीर में चुनने वाले मुजाहिदीनों को मार गिराना चाहिए था। यदि यह किया गया होता तो मौजूदा स्थिति नहीं होती। मोदी ने कहा कि विभाजन के दौरान मां भारती दो टुकड़ों में बंट गई और उसी रात मुजाहिदीन द्वारा कश्मीर पर पहला आतंकी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों को मदद से भारत माता के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की उस समय यह राय थी कि भारतीय सेना को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर फिर से कब्जा नहीं कर लिया जाता। हालांकि, पटेल की सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य बहुत विविध था। कश्मीर की घाटी, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान-तुर्क और अरब की आबादी थी। राज्य की जनसंख्या 97% मुस्लिम थी और शेष 3% थी। 1947 में पंहु में महाराजा हरि सिंह के खलिफा विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह के पीछे का कारण क्षेत्र में किसानों पर हरि सिंह द्वारा दंडात्मक कर था। देश



को आजादी मिले तीन महीने ही नहीं हुए होते थे। 24 अक्टूबर 1947 को पंहु पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर तैज दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित निर-पश्चिम सीमांत प्रांत मी (एनडब्ल्यूएफपी) के कई हजार परतुत आदिवासियों ने जम्मू-कश्मीर की महाराजा के शासन से मुक्त करने के लिए चुनपैठ की। महाराज के मी सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और 24 अक्टूबर 1947 को मुर उन्होंने लगभग पूरे पंहु जिले पर या नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजुफ्फराबाद और उन बागमूल शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से बीस मील उत्तर पश्चिम में पहुंच गए। जब परेशान और हताश महाराजा हरि सिंह ने मदद की उम्मीद के साथ फोन किया, तो नेहरू ने दिल्ली द्वारा उन्हें बचाने की स्थिति में नहीं होने की बात जफ कहा। राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारियों ने महाराजा की धोखा में दिया, कर्नल नारायण सिंह सम्बलाल पर जैसे अधिकारियों को मार डाला और में

राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारियों ने महाराजा की धोखा में दिया, कर्नल नारायण सिंह सम्बलाल पर जैसे अधिकारियों को मार डाला और में

## उपखंड अधिकारी ने दि निर्माण का अवलोकन दि दुकानों से जस की प्ल



धरियाबाद 30 मई (निसं)। उपखंड अ पालिका प्रशासन ने शुक्रवार को नगर के पुर दुकानों से प्लास्टिक पॉलीथिन जस की क अनुसार टीप के कुमार खासा सदर बाजार प्लास्टिक पॉलीथिन जस की कार्यवाही कर करने और कपड़ों से बने थैले उपयोग को उपखंड कार्यालय के मनोरा शर्मा पालिक मोहम्मद सिंह, लेखा शाखा के गोविंद सिंह भी निर्माणधीनी सीसी सड़क का किया औचक। कुमार ने दोपहर को नगर के कबुतर खाना से सड़क का औचक निरीक्षण कर कार्य की गु गुणवत्ता का ध्यान रख निर्माण के निदेश दि मानसून पूर्व जारी नाली सफाई अभियान के नालियों के ऊपर रखे अवरोधक पट्टियां हट दिए।

रावत वीर विक्रम सिंह विद्यालय धरियाबाद 30 मई (निसं)। 5 वी बोर्ड परी सिंह विद्यालय परिणाम शत प्रतिशत रहा विद्या को। शुक्रवार को संस्थान निदेशक भानुप्रताप। सिमिलत अमरजीत शर्मा द्वारा मेधावी विद्यार्थ विद्यालय प्रशासन अनुसार ए ग्रेड में अंशिका पार सुमित्रा झाला, पार्थ नाथ, शुभम किर ने ए अक्षतराज सिंह, लक्ष्मरारा, परमवीर सिंह, परीर किया है।

## वाबीक्यू नेशन ने किया मॉल उदयपुर में अपने रे

उदयपुर, (निसं)। भारत की अग्रणी रेटेल सेलिब्रेशन मॉल उदयपुर में अपने रेटेलों को अ के साथ रोलान्त किया। और साथ में बिकल व के मेहमानों को खुश कर रहे हैं। यह रेटेलों के के लिए एक उत्तम स्थान है। इस मॉक पर बार रोजनल मेनेजर नार्थ धर्मेश भाटी भी उपस्थित थे रोलान्त करते हुए हमें काफी खुशी हो रही है। सेवा देना ही हमारा पालना लक्ष्य है और यही ह है। हम उदयपुर के पब्लिज के आभारी हैं जिनोंने दिया। यह एक बेहतरीन यात्रा रही है और हम वा लुक रेटेलों में एक नई एंजियस और नई ऊर्जा। यहां की सबसे बड़ी खासियत अनलिमिटेड पि और अति स्टाईट डेजर्स हैं।